

IPC की धारा 377 की संवैधानिकता पर केंद्र सरकार ने फैसला सुप्रीम कोर्ट के वविक पर छोड़ा

चर्चा में क्यों?

समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया जाए या नहीं, केंद्र सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है। हाल ही में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने धारा 377 पर कोई स्टैंड नहीं लिया और कहा कि कोर्ट ही तय करे कि 377 के तहत सहमति से बालगों का समलैंगिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं। एडशिनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कहा कि हम 377 की वैधता के मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं, लेकिन अगर सुनवाई का दायरा बढ़ता है तो सरकार हलफनामा देगी।

प्रमुख बट्टि

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पाँच जजों की बेंच सुनवाई कर रही है जिसमें चीफ जस्टिस दीपक मशिरा, जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस ए.एम. खानवलिकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मलहोत्रा शामिल हैं।
- बुधवार को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रही। कोर्ट ने कहा है कि अगर दो बालगों के बीच आपसी सहमति से संबंध बनते हैं तो इसे अपराध करार नहीं दिया जा सकता।

केंद्र का वरिध

- तुषार मेहता ने कहा कि हादिया मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सभी को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। मेहता ने कहा कि इसका दायरा सपडि और सगे-संबंधियों से यौन संबंध (incest) तक नहीं पहुँचना चाहिये। तुषार मेहता ने कहा, 'मेरी पार्टनर मेरी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि हनिदू वविह अधिनियम के तहत यह प्रतबिधति है।'
- एक सवाल के जवाब में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि बेंच यहाँ यौन अभविन्यास के कसि भी "अजीब वचिारों" पर नरिणय लेने के लयि नहीं है।
- इसपर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा इस सुनवाई का वशिषाधिकार एक रशिते की प्रकृति को समझना और संवधिान के अनुच्छेद 21 (जीवन के मौलिक अधिकार) की सुरक्षा के तहत लाने के लयि है।
- रोहटिन नरीमन यह जानने के लयि हस्तक्षेप कयिा कि बेंच मौलिक अधिकार की 'वषिय-वस्तु' से बाहर तो नहीं जा रहा है।
- मुख्य न्यायाधीश मशिरा ने कहा कि अदालत "रशिते की रक्षा" के मुद्दे पर वचिार कर रही है।

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) का मुद्दा

- सरकार ने संवधिान पीठ से समलैंगिकों के बीच वविह, गोद लेने और एलजीबीटी समुदाय के अन्य नागरिक अधिकारों पर गौर न करने का आग्रह कयिा है।
- हालाँकि पीठ ने कहा कि अगर वह समलैंगिक वयस्कों द्वारा सहमति से बनाए गए संबंध को संवधिानिक करार देती है तो एलजीबीटी समुदाय में शादी, रोजगार और चुनाव लड़ने आदि से संबंधित अयोग्यता का मामला उठेगा।
- पीठ ने कहा कि धारा-377 को असंवैधानिक करार देने के बाद एलजीबीटी समुदाय में शादी आदि सामाजिक दृष्टि से अमान्य नहीं रह जाएगी।
- पीठ ने तुषार मेहता से कहा कि हम सरिफ सेक्सुअल एक्ट का परीक्षण नहीं कर रहे हैं। हम यह परीक्षण भी कर रहे हैं कि दो वयस्कों के बीच संबंध संवधिान के अनुच्छेद-21 (जीने का अधिकार) का हसिसा है या नहीं?
- पीठ ने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी स्थिति आए जब मैरनि डराइव पर घूम रहे दो समलैंगिकों को पुलसि परेशान करे और उन पर कानून के तहत मुकदमा दर्ज करे। पीठ ने कहा कि हम एलजीबीटी तक ही खुद को सीमति नहीं कर रहे।
- वास्तव में यह दो वयस्कों द्वारा सहमति से संबंध बनाने का मसला है। यह समझने की जरूरत है कि संवधिान के तहत संबंध को संरक्षण प्राप्त है।
- याचिकाकर्ताओं के वकीलों का कहना था कि भूल बात एलजीबीटी समुदाय की स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की है। गे समुदाय के लोगों को न सरिफ न्याय नहीं मलि रहा है बल्कि उन्हें प्रताडिति भी कयिा जा रहा है। उन्हें ब्लैकमेल कयिा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह महज धारा-377 का मसला नहीं है बल्कि संवैधानिक मूल्यों का है।

आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 (Criminal Tribes Act, 1871)

- इस अधिनियम ने कई हाशयि वाले आबादी समूहों जैसे-ट्रांसजेंडर को "सहज रूप से आपराधी" के रूप में ब्रांडेड कयिा था।

- 1949 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को रद्द कर दिया गया था लेकिन धारा 377 अभी भी जारी है।
- धारा 377 के खिलाफ लड़ाई में LGBT समुदाय के अनेक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
- वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बहस के दौरान तर्क दिया कि "हम केवल यौन अल्पसंख्यकों के रूप में सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि इसमें सभी मनुष्यों का सम्मान अंतर्नहित है।
- वरिष्ठ वकील अरवि डाटर ने तर्क दिया कि कामुकता, यौन स्वायत्तता और यौन साथी चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार मानव गरमा की आधारशिला है। धारा 377 लोगों के एक वर्ग को अपराधी बनाती है। यह कहना गलत है कि यह केवल कार्य को दंडित करता है न कि लोगों को।
- मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 15 (लैंगिक भेदभाव), 14 (समानता), 19 (स्वतंत्रता) और 21 (जीवन और गरमा) का उल्लंघन करती है। सुश्री गुरुस्वामी ने इसे एक भयानक औपनिवेशिक वरिष्ठ के रूप में चित्रित किया जिसमें "चलिंगि इफेक्ट" है।
- धारा 377 के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए वरिष्ठ वकील श्याम दविन ने अदालत से आग्रह किया कि यह 'अंतरंगता का अधिकार' घोषित करे। उन्होंने कहा कि एलजीबीटी के लोगों को उस स्थिति में मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब वे किसी प्रयोजन को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाते हैं या बैंक खाता खोलने हेतु जाते हैं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/govt-leaves-decision-on-sec-377-to-the-court>

